

**HONDA**

Ref: HIPP/SE/2023-24/21

May 15, 2023

**Corporate Relationship Department  
BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street, Fort,  
**Mumbai—400001**

**Honda India Power Products Limited**  
Head Office & Works :  
Plot No. 5, Sector-41, (Kasna)  
Greater Noida Industrial Development Area,  
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) Pin-201310  
Tel. : +91-120-2590 100  
Fax : +91-120-2590 350  
Website : www.hondaindiapower.com  
CIN : L40103DL2004PLC203950  
E-mail : ho.mgt@hspp.com

**Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.**  
5th Floor, Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
**Mumbai—400051**

**Scrip Code: NSE : HONDAPOWER  
BSE : 522064**

**Sub: Newspaper advertisement regarding publication of Financial Results**

Dear Sir/Madam,

In accordance with Regulations 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we enclose copies of Financial Results published in 'Financial Express' (Delhi and Mumbai) and 'Jansatta' (Delhi) on May 14, 2023 in connection with the Financial Results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2023 which were approved and taken on record by the Board of Directors at its Meeting held on Friday, May 12, 2023.

You are requested to take note of the same and notify your constituents accordingly.

Thanking you.

Yours truly,  
For **Honda India Power Products Limited,**



**Sunita Ganjoo  
Company Secretary and Compliance Officer**

Encl: as above

**Honda India Power Products Limited**  
(Formerly Honda Siel Power Products Limited)

Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025

## HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

Northern Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi - 67  
Tel.: 011-41115111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

### POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer of Housing Development Finance Corporation Limited, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notice, within 60 days from the date of the said Notice, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and/or realisation.

Sr. No.	Name of Borrower (s) / Mortgagor / Guarantor/ Loan Account No.	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Physical Possession	Description of Immovable Property (ies) / Secured Asset (s)
1.	MRS MONIKA SHARMA (IN CAPACITY AS CO BORROWER & WIFE/ LEGAL HEIR / LEGAL REPRESENTATIVE OF DECEASED BORROWER MR ANKUR SHARMA)	Rs. 27,04,246/- (Rupees Twenty Seven Lakh Four Thousand Two Hundred and Forty Six Only) due as on 31-MAY-2022	30-JUNE-2022	08-05-2023	APARTMENT NO. E-1903, 18TH FLOOR, TOWER NO. "E" EMERALD TOWER, "SG GRAND", SITUATED AT KHASRA NO. 145, 199, VILLAGE MORTI, RAJNAGAR EXTENSION, NH-58, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH ALONG WITH UNDIVIDED PROPORTIONATE SHARE OF LAND UNDERNEATH AND CONSTRUCTION THEREON PRESENT AND FUTURE.

\*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realisation. However, since the borrower(s)/legal heirs/legal representatives/guarantors mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrower(s)/legal heirs/legal representatives/guarantors mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC has taken Physical Possession of the immovable properties/secured assets described herein above in **Sl. Nos. 1** in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s)/legal heirs/legal representatives/guarantors mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Property/ Secured Asset and any dealings with the said Immovable Property / Secured Asset will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd.

The Borrower's/legal heirs/legal representatives/guarantors attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

Copies of the Panchnama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said borrower (s)/legal heirs/legal representatives/guarantors are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

For Housing Development Finance Corporation Ltd. Sd/-  
Place: DELHI  
Date : 12.05.2023  
Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020 Authorised Officer

## Honda India Power Products Limited

Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025  
Website: www.hondaindiapower.com, E-mail: hlegal@hisp.com

### EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2023

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended				Year ended	
		31 Mar 2023	31 Dec 2022	31 Mar 2022	31 Mar 2023	31 Mar 2022	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations	31,828	34,174	32,673	1,26,548	1,17,313	
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	2,657	4,291	2,125	13,290	10,006	
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	907	4,291	2,125	11,540	10,006	
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	581	3,195	1,958	8,509	7,453	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	281	3,194	1,562	8,207	7,451	
6	Equity Share Capital	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	
7	Reserves	72,660	-	-	-	65,974	
8	Earnings per equity share (of INR 10 per share) (not annualised): (a) Basic (INR) (b) Diluted (INR)	5.73 5.73	31.50 31.50	15.36 15.36	83.89 83.89	73.48 73.48	

Note:  
1 The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.hondaindiapower.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Honda India Power Products Limited Sd/-  
Shigeki Iwawata  
CMD and President & CEO  
DIN: 10075458

**For All Advertisement Booking**  
Call : 0120-6651214

## SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

### TENDER NOTICE FOR ELECTRICAL WORK

(1) Tender No.: TRD-BSP-179-23-24, Date: 09.05.2023.  
Work: Bilaspur Division: Rehabilitation of 05 nos. Power Transformers at various Traction sub-stations in C/C Section. (Udalkaicha-03 nos., Bismarup-02 no.). Tender Value: ₹ 1,52,95,291.72. Earnest Money Deposit: ₹ 2,31,500/-. Submission of Tender: Up to 15.00 hours on 05.06.2023.

(2) Tender No.: TRD-BSP-183-23-24, Date: 09.05.2023.  
Work: Periodical overhauling (IPOH) of 132kv/25kv, 21.6 MVA (01 No.) single phase Traction Power Transformer at Belgahna TSS. Tender Value: ₹ 16,84,733.63. Earnest Money Deposit: ₹ 33,700/-. Submission of Tender: Up to 15.00 hours on 07.06.2023.

For further details/purchase of Tender document, eligibility criteria and the complete details for the above works, please contact office of the Sr. Divisional Electrical Engineer/ TRD, South East Central Railway, Bilaspur (C.G.) or refer/download tender document which is available on our website: www.reps.gov.in. Sr. Divisional Electrical Engg. CPR/10155 (TRD)/Bilaspur. South East Central Railway & Electrical

## NOTICE

Ref. Company Petition No. (IB) -59/ND/2023 pending before Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-2 ("Adjudicating Authority"), titled INTEC CAPITAL LIMITED vs JAGMAL SINGH under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code").

IN THE MATTER OF INTEC CAPITAL LIMITED ...APPLICANT / FINANCIAL CREDITOR .../VS JAGMAL SINGH

...RESPONDENT/PERSONAL GUARANTOR TO MR. JAGMAL SINGH

R/O- PLOT NO. 1451, NEAR AIR FORCE STATION, VILLAGE-DARI, MACCHHA DADRI, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-202027

ALSO AT: NH-58, MEERUT ROAD, MODINAGAR, UTTAR PRADESH-201204

NEXT DATE OF HEARING: 23.05.2023

Take notice that the above said application in CP No. (IB)-59/ND/2023 has been filed against Mr. Jagmal Singh by Intec Capital Limited, before Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench 2 at New Delhi read with rule 7(2) of Insolvency and Bankruptcy (Application to the Adjudicating Authority for Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors). The petition came up for hearing on 01.02.2023 and then on 11.04.2023 and has been adjourned to 23.05.2023 with directions to serve you by this e-noticed service by publication to be present before Hon'ble National Company Law Tribunal New Delhi Bench-2 at New Delhi.

Sd/-  
Authorised Representative  
INTEC CAPITAL LIMITED

For ABM INTERNATIONAL LIMITED Sd/-  
(RAJNEESH GANDHI)  
MANAGING DIRECTOR  
DIN: 0924906

Place : New Delhi  
Date : 13.05.2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH C/P/IB) No.86/Cd/Hy/2023

In the matter of: M/s MTC Ispat Pvt. Ltd. Petitioner-Operational Creditor Versus M/s Steelfeather Industries Pvt. Ltd. Respondent-Corporate Debtor

NOTICE OF HEARING OF THE PETITION A Petition bearing number CP/IB) No. 86/Cd/Hy/2023, under Section 9 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was presented by the above named Petitioner-Operational Creditor, before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at Chandigarh, Plot No.48, Ground floor, Sector 27-B, Madhya Marg, Chandigarh and the said Petition is now fixed for hearing before the Hon'ble Tribunal on 13.06.2023. The aforesaid Respondent-Corporate Debtor i.e. M/s Steelfeather Industries Pvt. Ltd. has been directed by the Hon'ble Tribunal to file reply, if any, within two weeks with a copy in advance to the counsel opposite.

Sd/-  
Purshottom Lal Gupta  
Director of MTC Ispat Pvt.Ltd.

Place: Faridabad

Approx. Cost of the Work : ₹14998.13 Lakhs, EMD : ₹76.49,100/-, Completion Period of the Work : 24 (Twenty four) Months.

Tender Closing Date & Time : At 1200 hrs. of 02.06.2023.

No manual offers sent by Post / Courier / Fax or in person shall be accepted against such e-tenders even if these are submitted on firm's manual head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.

Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available in website : <http://www.reps.gov.in>

Note : The prospective tenderers are advised to visit the website 15 (Fifteen) days before the date of closing of tender to note any changes / corrigenda issued for this tender. The tenderers/bidders must have Class-III Digital Signature Certificate and must be registered on IREPS Portal. Only registered tenderer/bidder can participate on e-tendering.

The tenderers should read all instructions to the tenderers carefully and ensure compliance of all instructions including check lists, para 3.1 (additional check-list) of Tender form (Second sheet) Annexure-I, chapter 2 of Tender documents, submission of Annexure-B & G1 duly verified and signed by Chartered Accountant.

Chief Administrative Officer (Cony) PR-21/CG/23-24 Bhubaneswar

Ms Purnima Garg Contact: 7007625649  
E-mail id: meshas@ucobank.co.in

Mr. D P Chandak Contact: 9414562370  
E-mail id: sahara@ucobank.co.in

UCO BANK, Saharanpur Dehradun Road, Clock Tower Near Bilji Ghar Saharanpur, Uttar pradesh- 247001. E-mail id- sahara@ucobank.co.in

Authorised Officer

## DEMAND NOTICE (IN PURSUANCE WITH SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002)

## DCB BANK

DCB BANK LTD has sanctioned Loans facility to the following borrowers to purchase residential premises or/ business purpose by creating equitable mortgage in favour of DCB BANK LTD. The repayment of the loan is irregular and the account is finally classified as Non Performing Asset in accordance with directions and guidelines of Reserve Bank of India. DCB BANK has therefore invoked its rights under Section 13 (2) of the SARFAESI ACT, 2002 and called upon the borrowers to repay the total outstanding due mentioned therein, within 60 days from the date of the said Demand Notice.

The borrower is hereby called upon again publicly to pay the said total dues plus the charges & interest accrued till date within 60 days from the date of this notice failing which DCB BANK shall resort to all or any of the legal rights to TAKE POSSESSION of the said premise and dispose it and adjust the proceeds against the overdue amount. The borrower is also restrained from alienating or creating third party interest on the ownership of the property.

Sr. No.	LOAN ACCOUNT NO.	BORROWER, CO-BORROWER, GUARANTORS & LEGAL HEIRS NAME	ADDRESS OF THE MORTGAGED PROPERTY	DEMAND NOTICE DATE	DEMAND NOTICE AMOUNT
1.	268561000000048 and 266426000000064	M/S- SUPER SOFT DRINKS, SHUBHAM GUPTA and TANYA GUPTA	MOHALLA- BANVATA- GUNJ, WARD NO.53 BARADARI PARGANA, DISTT-MORADABAD UTTAR PRADESH-244001. And MOHALLA RETI STREET, WARD NO.28 PARGANA, DISTT-MORADABAD, UTTAR PRADESH-244001.	19-04-2023	Rs. 98,87,548.74/- as on 19-04-2023

Date: 14.05.2023  
Place: Delhi-NCR  
Sd/-  
Authorized Officer  
DCB BANK Limited

## Ujjivan SMALL FINANCE BANK SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA UP 201301

### POSSESSION NOTICE (For Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder; calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice. The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of address of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
M/S Balaji Infratech Through its proprietor Sachin Kumar UGF-1, Plot No. - D 15, Khasra No. 1561, Keshav Kunj, Near Shahnai Farm House, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201013 Sachin Kumar S/o Pawan Kumar UGF-1, Plot No. - D 15, Khasra No. 1561, Keshav Kunj, Near Shahnai Farm House, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201013 Anuradha W/o Sachin Kumar UGF-1, Plot No. - D 15, Khasra No. 1561, Keshav Kunj, Near Shahnai Farm House, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201013. In Loan Account No. 2347210090000006	All that piece and parcel of Freehold Residential Flat bearing no. FF 1 on 1st Floor without roof rights covered area measuring 50 Sq. Mtrs. of plot bearing No. D 15 & D 16 falling under Khasra no. 1561 situated at Keshav Kunj Colony Village Rasipur Ghaziabad Pargana Dasna Thesi and Distt. Ghaziabad UP which is bounded as under: Boundaries: East: Remaining portion, West: Plot No. D14, North: Road 18 ft wide, South: Other's property	Date of Demand Notice: 03.11.2022 Date of possession: 09.05.2023	Rs. 11,73,156.32/- as on 30-10-2022 and interest thereon.

(1) Dinesh Kumar Sharma S/o Jagdish Prasad, B-381, Street No. 2, Ashok Nagar, Mandoli, North East Delhi-110093. (2) Amba Process Through its Prop. Dinesh Kumar Sharma, Kh No. 1981, 1996, Gali No. 7, Krishna Vihar, Ghaziabad, Loni, Uttar Pradesh-201023. (3) M/s Anshu W/o Dinesh Kumar Sharma, B-381, Street No. 2, Ashok Nagar, Mandoli, North East Delhi-110093. In Loan Account No. 2203210090000004 & 2203218860000005

All that piece and parcel of residential property bearing Nagam No. 54B having an area of 275.00 Sq. Yards i.e. 230.00 Sq. Mtr., situated at Niranjan Puri, Tehsil, Koil, District-Aligarh which is bounded as follows: Boundaries: East: Property of Mahesh Chandra, West: Property of Lalpatra Varshaney, North: Road 20 Feet Wide, South: Property Smt. Shanti Devi & Smt. Kiran Devi

Date of Demand Notice: 10.02.2023  
Date of possession: 09.05.2023  
Rs. 53,77,043.13/- as on 07-02-2023 and interest thereon.

M/s Satyam Traders, Prop. Kapil Aggarwal Khair Road, Indira Nagar, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Also At: 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Kapil Aggarwal S/o Satya Prakash Aggarwal 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Uma Aggarwal W/o Kapil Aggarwal 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001, In Loan Account No. 2269210090000042

All part and parcel of residential property bearing Nagam No. 54B having an area of 275.00 Sq. Yards i.e. 230.00 Sq. Mtr., situated at Niranjan Puri, Tehsil, Koil, District-Aligarh which is bounded as follows: Boundaries: East: Property of Mahesh Chandra, West: Property of Lalpatra Varshaney, North: Road 20 Feet Wide

Date of Demand Notice: 13-02-2023  
Date of possession: 09-05-2023  
A/C 2269218860000009 Rs. 6,04,401.63/-  
A/C 2269210090000014 Rs. 10,26,447.89/- as on 07-02-2023 and interest thereon.

M/s Satyam Traders, Prop. Kapil Aggarwal Khair Road, Indira Nagar, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Also At: 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Kapil Aggarwal S/o Satya Prakash Aggarwal 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001 Uma Aggarwal W/o Kapil Aggarwal 54-B, Ashok Nagar, Opp. Reliance Tower, Gular Road, Koil, Aligarh, Uttar Pradesh-202001, In Loan Account No. 2269218860000009 and 2269210090000014

Date: 14.05.2023  
Place: Delhi & Aligarh  
Authorised Officer

## ADITYA BIRLA CAPITAL ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujrat-362 266. Corporate Office : 10<sup>th</sup> Floor, A Teck Park, Nirjon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East), Mumbai-400 063, MH.

NOTICE OF SALE BY PRIVATE TREATY UNDER RULE 9 (1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002

15 days' Notice of Sale of Immovable Secured Assets is hereby given by the Aditya Birla Finance Limited (Secured Creditor) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 Read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The undersigned as Authorized Officer of Secured Creditor has taken over possession of the Secured Assets(s) under SARFAESI Act 2002.

Public at large in general and the borrowers / co-borrowers and guarantors in particular, are hereby informed that the secured Asset(s) as mentioned in the Schedule are put for through Private Treaty as per the terms agree able to Secured Creditor on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis, for recovery of the dues mentioned herein below.

DATE OF SALE THROUGH PRIVATE TREATY : ON OR AFTER 29.05.2023

Sr. No.	Loan Account No., Borrowers Name & Address	Schedule / Details of Immovable Property (Secured Asset)	Reserve Price (INR)	Dis. Dues for Recovery of which Property/ies in Sale Being Sold
1.	LOAN A/C. NO. : AB/INXESB00003524 1. M/s. Iit Jagdeep Haa S/D/IR: Mr. Ratan Singh Negi 2. Mr. Mohan Singh Negi S/D/IR: Mr. Ratan Singh Negi 3. Mrs. Iyoti Rani Add: 1: R-25, Shop No. 2, Block-R, Model Town II, Delhi-110 009. Add: 2: House No. R-30, Ground Floor, Model Town II, Near Durga Mandir, Delhi-110 009.	All That Piece & Parcel House No. R-30, Gr. Floor, Rishabh Nagar, Model Town, Near Durga Mandir & Mother Dairy Shop, Mazra No. 19, Delhi-110 009, And bounded by :- East by : Mazor & House D/1 Raju ; West by : Raj Kamal Tekja to Peerabataran Road ; North by : Plot No. 2 Ajay Kumar ; South by : Plot No. 6, Smt. Durgam & Plot No. 8 Smt. Postiga Dev (PPR/SIC POSSESSION)	22,00,000/-	24,20,815.80 (Rs. Twenty Four Lakh Twenty Six Thousand Eight Hundred Fifteen & Eighty Paise Only) Due as on 20.06.2022

STANDARD TERMS & CONDITIONS FOR SALE OF PROPERTY THROUGH PRIVATE TREATY ARE AS UNDER:-

- The Proposed purchaser will be required to deposit interest free token amount of 30% of the agreed sale consideration along with his proposal and balance amount to be paid as per agreed terms between secured creditor and proposed purchaser.
- The proposed purchaser will be required to submit the self attested copy of KYCs along with his / her proposal and execute such documents / terms of sale as secured creditor may require
- In the event of failure to pay the balance sale consideration amount or part thereof as agreed, the Secured Creditor may forfeit the amount already been paid by the purchaser.
- In case non acceptance of offer of purchase the secured creditor the amount of 30% paid along with proposal will be refunded to proposed purchaser without interest.
- The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the secured creditor. The Authorized Officer of the secured creditor or any of its officials is not responsible in any way for any third party claims / rights/dues.
- The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property (under sale through private treaty) to the best of his satisfaction. The purchaser shall not be entitled to make any claim, of any nature, against the Authorized Officer / Secured Creditor or any of its officer in this regard at a later date.
- The ABFL reserves the right to reject any offer of purchase without assigning any reason at any time before sale of property.
- In case of more than one offer, the ABFL will accept the highest offer.
- The interested parties may contact the Authorized Officer for further details / clarifications and for submitting their application along with their self-attested KYC (Valid ID proof/ Address Proof & Pan Card copy)
- The purchaser has to bear all stamp duty, registration fee & other expenses, taxes, duties in respect of purchase of the property
- On Receipt of Entire Sale Consideration amount and after registration of Sale certificate by the proposed purchaser ABFL would release the charge over the property and hand over the vacant peaceful possession to the proposed purchaser and hand over all chain documents of the property which ever available with ABFL.
- Sale shall be in accordance with the provisions of SARFAESI Act / Rules and AS & What Basis. The intending bidder can also contact Authorized Officer M. Mukesh Kumar Choudhary (mukesh.choudhary@adityabirlacapital.com) Mob. No: 9349376618 / 9004266330 or visit nearest branch of ABFL.

Date : 14.05.2023  
Place : New Delhi  
Authorised Officer  
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED

## UCO Bank

### POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Under Rules 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the UCO Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower / Guarantor as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties, and any dealings with the property will be subject to the charge of UCO BANK, for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Branch/Borrower/ Guarantors & Branch	Description of the Immovable Property & Date of Demand Notice/Possession Date & Outstanding Amount	Date	Place	Authorised Officer
1.	Branch: Govardhan Borrower: M/s Suresh Tent and Sound Service, Proprietor: Shri Suresh Chandra R/o Radhakund, Govardhan, Mathura (U.P.): 281502	All parts and parcels of the Property in the name of Shri Suresh Chandra Sharma S/o Sh. Mohan Lal Sharma, Part of Plot No. 76 & 77 and Khasra No. 673 (Part), Mauza- Goverdhan Brahman, Tehsil- Goverdhan, Distt. Mathura, Area- 143.00 sq. mt. Registered Sale deed in Book No. 1, Vol. No. 735, Page No. 231-248 at Serial No. 8408 on dated 11.12.2002. As per Deed Bounded: North- Plot No. 75 (Part), South: Rasta 17'6" wide, East- Plot No. 90 & 91, West: Parts Plot No. 76 & 77. As per Site Bounded: North: Property of Satyaveer, South: Rasta 17'6" wide, East: Property of Hari Prasad & Suresh Chand Goswami, West: Property of Ved Prakash Saraswat & Pandit Ji Painitha Wale (Sold Part). Demand Notice Date: 20.02.2023, Date of Possession: 08.05.2023, Outstandings: Rs 3,23,861.46 as on 31.10.2022 with future interest and incidental charges w.e.f. 31.10.2022.	13.05.2023	Mathura	Authorised Officer

## UCO Bank Zonal Office : Krishna Plaza, C-2/6, D-Block, Ganga Nagar, Mawana Road, Meerut- 250 001 (U.P.)

### E-AUCTION SALE NOTICE

#### PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF ASSETS UNDER THE SECURITIZATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS & ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Date of E-Auction 23.06.2023 from 01:00 pm to 05:00 pm

Sale of Immovable Property/ies mortgaged to Bank under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (No. 54 of 2002) whereas, the Authorized Officer of UCO BANK had taken Possession of the following property/ies pursuant to the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in the following loan accounts with right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS & WHATEVER THERE IS BASIS & WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of Bank's dues plus interest as detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues, the undersigned in

**GAYATRI BIOORGANICS LIMITED**

Regd. Office: B3, Third Floor, 6-3-1090, T.S.R. Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad -500 082, Telangana, India. E-mail: gayatribioorganics@gmail.com. CIN: L24110TG1991PLC013512

**Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31<sup>st</sup> March, 2023**

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
Total Income from Operations (Gross)	166.74	-	166.74	-
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(67.16)	(13.74)	(79.57)	(49.61)
Net Profit/(Loss) for the period "before tax" (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(67.16)	(13.74)	(79.57)	(49.61)
Net Profit/(Loss) for the period "after tax" (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(67.16)	(13.74)	(101.04)	(49.61)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(67.16)	(13.74)	(101.04)	(49.61)
Equity Share Capital	7,878.81	7,878.81	7,878.81	7,878.81
Earning Per Share (of ₹ 10/-each) (for continuing and discontinued operations)	(0.09)	(0.02)	(0.13)	(0.06)

**Note:**  
1. The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results for the Quarter ended March 31, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Unaudited financials Prepared. The full format of the said quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on Company's website: www.gayatribioorganics.com.

Place: Hyderabad  
Date : May 12, 2023

By Order of the Board of Directors  
Sd/-  
Chairman

**BIG VICTORY IN KARNATAKA ELECTIONS**

**Cong's game plan: A united front, early kick-off, hyperlocal campaign**

**Karnataka model to be replicated in MP, elsewhere**

MANOJ CG  
New Delhi, May 13

WITH 136 SEATS, the Congress has just had one of its biggest victories in Karnataka. It is also a huge win for the party nationally, which has only won Himachal Pradesh since the 2019 Lok Sabha poll loss.

In terms of both electoral weight as well as symbolic, for being the only state held by the BJP in the south, Karnataka is a big victory for the Congress. Sources in the high command said the Karnataka template will now be replicated in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan.

The things that paid off for the Congress: **Unity message**  
In August last year, when Rahul Gandhi hugged D K Shivakumar to hug Siddaramiah on the dais at the former chief minister's 75th birthday bash, it evoked much laughter in the Congress circles and drew ridicule from the BJP.

The Congress often asks its warring leaders in states to put up a united face in elections, but it was the first time it micromanaged and coordinated their joint appearances. Shivakumar and Siddaramiah's joint appearance with Rahul during his Bharat Jodo Yatra in October was the second such event. Then came the much-talked-about video interaction between Siddaramiah and Shivakumar, itself an improvisation. Finally, just a day before polling, came the



Congress leader Rahul Gandhi addresses the media in New Delhi on Saturday

REUTERS

final joint appearance: at Chamundeshwari temple. **Guarantees, outreach to women and youth**  
Women and youth have been a big vote bank for the BJP under Prime Minister Narendra Modi, and the Congress made a concerted push to make a dent here. There was a realisation that announcements made in manifestos nearer to voting day never really percolated down to voters. Accordingly, the party decided to make public its key promises much in advance, and in a staggered manner.

Accordingly, Priyanka Gandhi Vadra announced the 'Gruha Lakshmi' scheme, promising ₹2,000 a month to women-led households, in January at a convention of women. Days later, the party unveiled its second promise, of 200 units of free electricity.

In February, Shivakumar announced the third guarantee—10 kg of free rice per month to each BPL family member under the 'Anna Bhagya' scheme. Addressing a

**Women and youth have been a big vote bank for the BJP under Prime Minister Narendra Modi, and the Congress made a concerted push to make a dent here**

public meeting in Belagavi in March, Rahul announced the fourth promise—₹3,000 every month to unemployed youth with graduation degrees for two years called 'Yuva Nidhi'.

The fifth promise—free bus service for women—was announced by Rahul in the middle of the campaign. **Corruption as central plank, hyperlocal campaign**  
Like with identifying guarantees, zeroing in on issues too began nearly a year in advance. For example, corruption, which was seen as a major taint against the Basavaraj Bommai government. The idea was to set a narrative before the BJP gov-

ernment seized the same and ensure that the campaign was centered around that.

In September last year, posters with QR codes and pictures of the Karnataka Chief Minister stating "PayCM" sprung up across Bengaluru. The campaign stuck, enough to rile the CM. The charge of "40 per cent commission sarkara" was made ad nauseam by Congress leaders—right from Rahul to Priyanka and party president Mallikarjun Kharge to state leaders.

**Strategic silence on JD(S)**  
Unlike the 2018 elections when Rahul himself called the JD(S) the B-Team of the BJP, the Congress this time maintained a tactical silence on the JD(S). "The JD(S) vote bank primarily consists of Vokkaligas, Dalits and Muslims. An attack on the JD(S) and the Gowdas would have backfired. So we attacked the JD(S) at street-corner meetings and all, but asked our top leaders to stay away from talking about the JD(S)," a leader said.

**Yellen hopes US regulators will okay mergers in midsize banks**

REUTERS  
Niigata (Japan), May 13

THE CURRENT BANKING environment and pressures on earnings of some US regional banks may lead to some concentration in the sector, and regulators will likely be open to such mergers, US treasury secretary Janet Yellen has said.

Yellen told Reuters she was not seeing evidence of pressure on smaller community banks, which had a large percentage of insured deposits. She expressed confidence that nearly all banks had access to sufficient liquidity to guard against unexpected deposit outflows from uninsured depositors. However, she said a certain degree of consolidation in the regional and midsize banking sector could occur. She declined to discuss any specific banks. "This might be an environment in which we're going to see more mergers, and you know, that's something I think the regulators will be open to, if it occurs," she said.

Yellen sought to reassure her G7 partners this week that the US financial system was stable, saying the United States had taken action to strengthen confidence in its banking system after the failure of three regional banks since mid-March. Shares of major US regional lenders have been more volatile in recent weeks, with investors still wary about the stability of mid-sized banks. The KBW Regional



US treasury secretary Janet Yellen (R) with British finance minister Jeremy Hunt at the G7 Finance Ministers' Meeting in Japan on Saturday

AP/PTI

Banking index, which has fallen nearly 14% so far this month, rose 0.39%, but PacWest Bancorp, which lost 23% after reporting a decline in deposits, dropped a further 3%. Yellen noted that pressure on a bank's stock could unsettle uninsured depositors.

"The unfortunate dynamic is that once a bank's stock is under pressure, it can trigger concern among uninsured depositors... even though the bank has adequate capital and liquidity," she said. Yellen has called a showdown over raising the country's debt ceiling "more difficult" than in the past but said she remained hopeful a

solution could be found to avert a first-ever US default.

The US treasury chief has called repeatedly for Congress to agree to raise the \$31.4 trillion cap on federal borrowing to avert the "economic and financial catastrophe" that would ensue if the US defaulted on its debts.

British finance minister Jeremy Hunt told reporters the standoff posed a "very serious" threat to the global economy. "It would be absolutely devastating if America... was to have its GDP knocked off track by not reaching agreement," Hunt said on the sidelines of the G7 meetings.

**Yellen defends Biden's plans**

JANET YELLEN WILL update Congress on how close the US is to defaulting on its financial obligations within the next two weeks and defended the steep rise of debt issuance under the Biden administration. "I don't want to be specific about when we do updates—when we think we have more information, but certainly within the next couple of weeks," Yellen said in an interview with Bloomberg News in Niigata, Japan. She last wrote to lawmakers on May 1, telling them her department could run out of cash as soon as June 1.

A day after the Congressional Budget Office's updated projections showed it expects the US debt to hit 119% of gross domestic product by 2033, the highest in US history, the Treasury chief responded to concerns over the level of federal borrowing.

"We proposed \$3 trillion of deficit reduction over 10 years, and I would say the fiscal path involved in our budget is reasonable," Yellen said.

**G7 finance leaders vow to contain inflation**

ASSOCIATED PRESS  
Niigata, (Japan), May 13

THE GROUP OF SEVEN'S top financial leaders united in their support for Ukraine and their determination to enforce sanctions against Russia for its aggression but stopped short of any overt mention of China. The finance ministers and central bank chiefs ended three days of talks in Niigata, Japan, with a joint statement pledging to bring inflation under control, help countries struggling with onerous debts and strengthen financial systems.

They also committed to collaborating to build more stable, diversified supply chains for developing clean energy sources and to "enhance economic resilience globally against various shocks."

**Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting, Niigata**



Japanese finance minister Shunichi Suzuki (centre), governor of the Bank of Japan Kazuo Ueda (right) at the presidency press conference in Niigata, Japan

AP/PTI

The statement did not include any specific mention of China or of "economic coercion" in pursuit of political objectives, such as penalising the companies of countries whose governments take actions that anger another country. Talk

this week of such moves by China had drawn outraged rebukes from Beijing. Officials attending the talks in this port city apparently balked at overtly condemning China, given the huge stake most countries have in good relations with the rising

power and No. 2 economy. Japanese finance minister Shunichi Suzuki said that Treasury Secretary Janet Yellen mentioned the issue in a working dinner, but he refrained from saying anything more.

The G7's devotion to protecting what it calls a "rules-based international order" got only a passing mention. The leaders pledge to work together both within the G7 and with other countries to "enhance economic resilience globally against various shocks, stand firm to protect our shared values, and preserve economic efficiency by upholding the free, fair and rules-based multilateral system," it said. G7 economies comprise only a tenth of the world's population but about 30% of economic activity, down from roughly half 40 years ago.

**ADITYA BIRLA CAPITAL**  
PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

**ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED**  
Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266.  
Corporate Office: 10<sup>th</sup> Floor, R Teck Park, Nirilon Complex, Near Hub Mall, Goregaon (East), Mumbai-400 063, MH.

**E-AUCTION PRE-SALE NOTICE**  
15 days Auction Pre-Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Whereas the Authorized Officer of Aditya Birla Finance Limited / Secured Creditor had taken possession of the following secured assets pursuant to notice issued under Sec. 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) for recovery of the secured debts of the secured creditor, for the dues as mentioned herein below with further charges and cost thereon from the following Borrowers and Co-Borrowers. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Co-Borrowers that e-auction of the following property for realization of the debts due to the Aditya Birla Finance Limited will be held on "As is where is," "As is what is" and "Whatever there is" basis.

**DATE & TIME OF E-AUCTION : 29.05.2023, BETWEEN 11:00 A. M. TO 01:00 P. M. LAST DATE OF RECEIPT OF KYC & EARNETS MONEY DEPOSIT (EMD) : 27.05.2023**

Sr. No.	Name of the Borrowers & Co-Borrowers	Description of Properties / Secured Assets and Date of Possession	Reserve Price (IN ₹)	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP) (IN ₹)	Demand Notice Date and Total Amount (IN ₹)
1.	MRS. RUPALI NITIN TAYADE W/o. Mr. Nitin Tayade	All that piece & parcel Plot No. 81, CHS. Shiv Shakti Nagar, off B-cabin Road, S. No. DD Scheme 15, of admeasuring 111.51 sq. Mt. With Ground Floor + 1 <sup>st</sup> floor in the Society known as "Budha Ghosh Co-operative Housing Society Limited" situated at Village : Vadavali, Ambar Nath (E) District, Thane-421 503, MH. As Bounded by :- East : Plot No. 82; -West : Plot No. 80; -North : Plot No. 75; -South : Road. (PHYSICAL POSSESSION)	38,00,000/- (Rs. Thirty Eight Lakh Only)	3,80,000/- (Rs. Three Lakh Eighty Thousand Only)	23.12.2021 40,99,961.88 (Rs. Forty Lakh Ninety-Nine Thousand Nine Hundred Sixty-One & Eighty-Eight Paise Only) Due as on 15.12.2021

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Finance Limited / Secured Creditor's website i.e. <https://personalfinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act.aspx>.  
Contact Nos.: Aditya Birla Finance Limited Authorized Officer - (1) Mr. Mukesh Kumar Choudhary (mukesh.choudhary@adityabirlacapital.com) Mob. No. 9343976618 / 9004266300

Place : Mumbai, Maharashtra.  
Date : 14.05.2023

Sd/-  
Authorised Officer  
**ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED**

**Honda India Power Products Limited**  
CIN: L40103DL2004PLC203950  
Regd. Office : 409, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, New Delhi - 110025  
Website : www.hondaindiapower.com, E-mail : h.legal@hsp.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ENDED 31 MARCH 2023**

S. No.	PARTICULARS	Quarter ended		Quarter ended		Year ended		Year ended	
		31 Mar 2023	31 Dec 2022	31 Mar 2022	31 Mar 2023	31 Mar 2022	31 Mar 2022	31 Mar 2022	31 Mar 2022
1	Total Income from Operations	31,828	34,174	32,673	1,26,546	1,17,313			
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	2,857	4,291	2,125	13,290	10,006			
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	907	4,291	2,125	11,540	10,006			
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	581	3,195	1,558	8,509	7,453			
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	281	3,194	1,562	8,207	7,451			
6	Equity Share Capital	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014			
7	Reserves	72,660	-	-	-	65,974			
8	Earnings per equity share (of INR 10 per share) (not annualised): (a) Basic (INR) (b) Diluted (INR)	5.73 5.73	31.50 31.50	15.36 15.36	83.89 83.89	73.48 73.48			

**Note:**  
1) The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.hondaindiapower.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Honda India Power Products Limited  
Sd/-  
Shigeki Iwama  
CMD and President & CEO  
DIN: 10075458

Place : New Delhi  
Date : May 12, 2023

**CLASSIFIEDS**  
**BUSINESS**  
**BUSINESS OFFERS**

Stock Market Education.  
Learn stock market  
Investment and Trading at  
less than Rs 500 with Pre-  
Recorded Courses, Free  
offers and Life Time Validity.  
log in  
www.prudenceconsultants.com  
<http://www.prudenceconsultants.com/>  
>email :  
prudence.etc@gmail.com  
<mailto:prudence.etc@gmail.com>  
> or whatsapp  
+ 91 7200094852

050218527-1

**"IMPORTANT"**  
While care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express Group Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary enquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever. Registered letters are not accepted in response to box number advertisement.

**ALPHALOGIC**  
CIN: L72501PN2018PLC180757  
Reg. Office: 405, PRIDE ICON, NR COLUMBIA ASIA HOSPITAL, KHARADI BYPASS ROAD, PUNE 411014  
Email: info@alphalogiclimited.com, Web: www.alphalogicinc.com

**Extract of Statement of Consolidated Financial Statements for the Quarter and Year ended March 31, 2023** (Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarterly		Yearly		
		Quarter Ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter Ended Dec 31, 2022 (Audited)	Quarter Ended March 31, 2022 (Audited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)	Year Ended March 31, 2022 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	871.10	576.53	347.74	2296.66	1414.10
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	174.97	170.84	80.53	546.50	272.15
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items)	174.97	170.84	80.53	546.50	272.15
4	Net Profit for the period after Tax (after exceptional and/or extraordinary items)	130.18	126.72	59.86	407.76	207.03
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income after tax)	101.22	148.38	60.87	334.78	158.72
6	Equity Share Capital	1757.14	1757.14	1128.66	1757.14	1128.66
7	Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet of the previous year	1018.54	-	724.32	1018.54	724.32
8	Earnings per share (Rs.05/- each) * a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.)	0.37 0.36	0.37 0.36	0.29 0.29	1.19 1.17	0.65 0.65

\* EPS is not annualized for the quarter ended March 31, 2023.

**Notes:**  
1) The above is an extract of the detailed format of quarterly and year end Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Company www.alphalogicinc.com under investors section  
2) Additional information on standalone financial results are given below:-

S. No.	Particulars	Standalone		Yearly		
		Quarter ended March 31, 2023 (Audited)	Quarter ended Dec 31, 2022 (Audited)	Quarter ended March 31, 2022 (Audited)	Year Ended March 31, 2023 (Audited)	Year Ended March 31, 2022 (Audited)
1	Total income from Operations (Net)	141.53	127.86	123.69	503.68	485.90
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or extraordinary items)	72.03	74.77	66.19	253.98	226.90
3	Net Profit for the period after tax	52.97	54.89	49.31	189.03	173.20

Place: Pune  
Date: May 14, 2023

for Alphalogic Techsys Limited  
Sd/-  
Anshu Goel, MD

